



'समानो मन्त्रः समितिः समानी'

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

B.A. 1st Semester Examination, 2022

ENVIRONMENTAL STUDIES

AECC-1

Time Allotted: 2 Hours 30 minutes

Full Marks: 80

*The questions are of equal value.
The figures in the margin indicate full marks.*

Instruction

The candidate should indicate the correct Roll Number, Registration No., Course, Question Booklet Series, Question Booklet SET on the OMR Answer-Sheet otherwise the Answer-Sheet will not be evaluated and the candidate will be solely responsible for it.

Each question has four alternative answers. The candidate has to darken only one circle/bubble on the Answer-Sheet using black/blue ballpoint pen indicating the correct answer as shown below. If more than one answer / option is found darkened, then the question will be treated wrong and will not be evaluated.

Example: Correct Method: ○ ● ○ ○ Wrong Method: ⊗ ⊙ ⊙ ⊙

Answer all the questions / सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए /
सबकटि प्रश्नों के उत्तर दीजिए / सबै प्रश्नहरूका उत्तर लेख्नुहोस्

1×80 = 80

Choose the correct option / सही विकल्प चुनिए / सঠिक উত্তরটি চয়ন কর / सही विकल्प छान्नुहोस्

- Who is known as 'Waterman of India'?
(A) Anna Hazare (B) Rajendra Singh (C) M.S. Swaminathan (D) Subhash Dutta
'वाटर मैन ऑफ इंडिया' के नाम से किसे जाना जाता है ?
(A) अन्ना हजारे (B) राजेन्द्र सिंह (C) एम० एस० स्वामीनाथन (D) सुभाष दत्ता
'Waterman of India' नामे परिचित व्यक्ति कि हल्लेन —
(A) आन्ना हजारे (B) राजेन्द्र सिंह (C) एम. एस. स्वामीनाथन (D) सुभाष दत्त
कसलाई 'वाटर मैन आफ इन्डिया' भन्नेर चिनिन्छ ?
(A) अन्ना हजारे (B) राजेन्द्र सिंह (C) एम० एस० स्वामीनाथन (D) सुभाष दत्ता
- 'Black Foot' disease is caused by —
(A) SPM (B) Cadmium (C) Arsenic (D) Fluorine
'ब्लैक फुट' रोग का कारण है —
(A) SPM (B) कैडमियम (C) आरसेनिक (D) फ्लोरीन
'Black Foot' रोग कि जन्य दायी हल्लेन —
(A) SPM (B) काडमियम (C) आर्सेनिक (D) फ्लोरीन
'ब्लैक फुट' रोग लाग्ने कारण हुन् —
(A) SPM (B) कैडमियम (C) आरसेनिक (D) फ्लोरीन
- Maximum amount of gas found in air is —
(A) Oxygen (B) Carbon-di-oxide (C) Nitrogen (D) Ozone

हवा में सबसे अधिक गैस पायी जाती है –

- (A) ऑक्सीजन (B) कार्बन-डाई-आक्साइड (C) नाइट्रोजन (D) ओजोन

वातासे सर्वाधिक मात्राय पाওয়া যায় —

- (A) অক্সিজেন (B) কার্বন-ডাই-অক্সাইড (C) নাইট্রোজেন (D) ওজোন

हावामा अधिकतम पाइने ग्यास –

- (A) अक्सीजन (B) कार्बन-डाई-अक्साइड (C) नाइट्रोजन (D) ओजोन

4. Ganga Action Plan in India was launched in the year —

- (A) 1988 (B) 1986 (C) 1980 (D) 1978

गंगा एक्सन प्लान भारत में शुरू किया गया था –

- (A) 1988 (B) 1986 (C) 1980 (D) 1978

ভারতে ‘গঙ্গা অ্যাকশন প্লান’ চালু হয় কত সালে —

- (A) ১৯৮৮ (B) ১৯৮৬ (C) ১৯৮০ (D) ১৯৭৮

भारतमा ‘गङ्गा एक्सन प्लान’ सुरु भएको वर्ष थियो –

- (A) 1988 (B) 1986 (C) 1980 (D) 1978

5. The ecological Pyramid that is always upright —

- (A) Pyramid of energy (B) Pyramid of Biomass
(C) Pyramid of number (D) None of these

पारिस्थितिक पिरामिड जो हमेशा सीधा रहता है –

- (A) ऊर्जा का पिरामिड (B) जैव मात्रा का पिरामिड
(C) संख्या का पिरामिड (D) इनमें से कोई नहीं

বাস্তুতন্ত্রের যে পিরামিড সর্বদা লম্ব হয় —

- (A) শক্তির পিরামিড (B) জীবভরের পিরামিড (C) সংখ্যার পিরামিড (D) কোনোটিই নয়

पारिस्थितिक पिरामिड जो सदैव ठाडो रहने गर्छ –

- (A) ऊर्जाका पिरामिड (B) जैव मात्राका पिरामिड
(C) सङ्ख्याका पिरामिड (D) कुनै पनि होइन

6. Ramsar convention is related to —

- (A) Desert (B) Wetlands (C) Agricultural lands (D) Forest lands

रामसर सम्मेलन से संबंधित है –

- (A) मरुभूमि (B) आद्रभूमि (C) कृषि भूमि (D) वन भूमि

রামসার অধিবেশন কোনটির সাথে সম্পর্কিত ?

- (A) মরুভূমি (B) জলাভূমি (C) কৃষিভূমি (D) বন সংরক্ষণের সাথে

रामसर सम्मेलनसित सम्बन्धित छ –

- (A) मरुभूमि (B) आद्रभूमि (C) कृषिभूमि (D) वनभूमि

7. The main component of ‘Biogas’ is —

- (A) Nitrogen (B) Oxygen (C) Methane (D) Carbon-di-oxide

‘बायोगैस’ का मुख्य अवयव है –

- (A) नाइट्रोजन (B) ऑक्सीजन
(C) मीथेन (D) कार्बन-डाई-आक्साइड

জৈব গ্যাসের মূল উপাদান হল —

- (A) নাইট্রোজেন (B) অক্সিজেন (C) মিথেন (D) কার্বন-ডাই-অক্সাইড

'बायोग्यास'का मुख्य अवयव हुन् —

- (A) नाइट्रोजन (B) अक्सीजन
(C) मिथेन (D) कार्बन-डाई-अक्साइड

8. The causes of biodiversity loss is —

- (A) Habital loss (B) Poaching of Wildlife
(C) Over-exploitation of resources (D) All of these

जैव विविधता के नुकसान के कारण हैं —

- (A) प्राकृतिक वास का नुकसान (B) वन्य जीव का अवैध शिकार
(C) संसाधनों का अति दोहन (D) इनमें से सभी

জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ের কারণগুলি হল —

- (A) বাসস্থানের হ্রাস (B) বন্যপ্রাণী হত্যা
(C) জীব সম্পদের অত্যধিক ব্যবহার (D) এদের সবকটিই

'जैव विविधता'—लाई हानी पुन्याउने कारण हुन् —

- (A) प्राकृतिक वासका क्षति (B) वन्य जीवको शिकार
(C) स्रोत संसाधनहरूका अति क्षय (D) यी जम्मै

9. 'The Environment Protection Act' was introduced in India in —

- (A) 1980 (B) 1986 (C) 2001 (D) 2010

भारत में 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम' पेश किया गया था —

- (A) 1980 (B) 1986 (C) 2001 (D) 2010

ভারতে 'পরিবেশ সুরক্ষা আইন' প্রবর্তিত হয় যে সালে —

- (A) ১৯৮০ (B) ১৯৮৬ (C) ২০০১ (D) ২০১০

भारतमा 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम' सुरुवात गरिएको वर्ष थियो —

- (A) 1980 (B) 1986 (C) 2001 (D) 2010

10. 'Silent Valley' lies in the state of —

- (A) Bihar (B) Kerala (C) Tamil Nadu (D) Goa

'साइलेन्ट वैली' राज्य में स्थित है —

- (A) बिहार (B) केरला (C) तमिलनाडु (D) गोवा

সাইলেন্ট উপত্যকা যে রাজ্যে অবস্থিত —

- (A) বিহার (B) কেরালা (C) তামিলনাড়ু (D) গোয়া

'साइलेन्ट भेल्ली' स्थित राज्य हुन् —

- (A) बिहार (B) केरला (C) तमिलनाडु (D) गोवा

11. Minamata disease is associated with —

- (A) SO₂ (B) Mercury (C) NO₂ (D) Arsenic

मीनामाता रोग संबंधित है —

- (A) SO₂ (B) मरकरी (C) NO₂ (D) आरसेनिक

'मिनामाटा' रोगाटि येटिर सङ्गे सम्पर्कित —

- (A) SO₂ (B) पारद (C) NO₂ (D) आर्सेनिक

'मीनामाता' रोगसित सम्बन्धित छ —

- (A) SO₂ (B) मरक्युरी (C) NO₂ (D) आरसेनिक

12. The intensity of Earthquake is measured in —
 (A) Decibels (B) Linnean Scale (C) Richter Scale (D) Linear Scale
 भूकम्प की तीव्रता मापी जाती है —
 (A) डेसीबल (B) लिनियन स्केल (C) रिक्टर स्केल (D) लीनियर स्केल
 ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপা হয় —
 (A) ডেসিবেল (B) লিনিয়ন স্কেল (C) রিখটার স্কেল (D) লিনিয়ার স্কেল
 भूकम्पको तीव्रता मापन गरिन्छ —
 (A) डेसीबल (B) लिनियन स्केल (C) रिक्टर स्केल (D) लिनियर स्केल
13. Which gas is emitted in Bhopal Gas Tragedy?
 (A) LPG (B) MIC (C) NO₂ (D) SO₂
 भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस उत्सर्जित हुई है ?
 (A) LPG (B) MIC (C) NO₂ (D) SO₂
 ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় কোন্‌ গ্যাস নির্গত হয়েছিল ?
 (A) LPG (B) MIC (C) NO₂ (D) SO₂
 'भोपाल ग्यास त्रासदी'-मा कुनचाहिँ ग्यास उत्सर्जित भएका हुन् —
 (A) LPG (B) MIC (C) NO₂ (D) SO₂
14. Which of the following is *not* a method of water conservation?
 (A) Rain water harvesting (B) Ground water extraction
 (C) Improving irrigation efficiency (D) Avoiding water wastage
 निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण का तरीका नहीं है ?
 (A) वर्षा जल संचयन (B) भूजल निष्कर्षण
 (C) सिंचाई दक्षता में सुधार (D) पानी की बर्बादी से बचना
 নিম্নোক্ত কোনটি জল সংরক্ষণের পদ্ধতি নয় —
 (A) বৃষ্টিবারি সংরক্ষণ (B) ভূগর্ভস্থ জল নিষ্কাশন (C) সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন (D) জল অপচয় রোধ
 निम्नलिखित मध्ये कुनचाहिँ जल संरक्षणका लागि उपयोगी तरिका होइनन् —
 (A) वर्षा जल संचयन (B) भू-जल निष्कर्षण
 (C) सिंचाइ क्षेत्रमा सुधार (D) जल बर्बादीबाट बचाउँनु
15. Red Data Book provides data on —
 (A) Red flowered plants (B) Red coloured fishes
 (C) List of plants and animals (D) Endangered plants and animals
 'रेड डाटा बुक' (Red Data Book) डेटा प्रदान करती है —
 (A) लाल रंग के फूलों के पौधे (B) लाल रंग की मछलियां
 (C) पेड़ एवं जानवरों की सूची (D) लुप्तप्राय पौधे और जानवर
 রেড ডাটা বুক (Red Data Book) যে বিষয়ে তথ্য দেয় —
 (A) লাল পুষ্পযুক্ত উদ্ভিদ (B) লাল রঙের মাছ
 (C) উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সারণী (D) বিপদাক্রান্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী
 'रेड डाटा बुक'-ले जानकारी दिने गर्छ —
 (A) राता रंगका फुलका बनस्पति (B) राता रंगका माछाहरू
 (C) वनस्पति अनि पशुहरूका सूची (D) लुप्तप्राय: वनस्पतिहरू र पशुहरू

16. Energy flow in ecosystem is —

- (A) Unidirectional (B) Bidirectional (C) Multidirectional (D) None of these

पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाहित होती है —

- (A) दिशाहीन (B) द्विदिश
(C) विभिन्न दिश (D) इनमें से कोई भी नहीं

বাস্তবত্বে শক্তির সংবহন —

- (A) একমুখী (B) দ্বিমুখী (C) বহুমুখী (D) এদের কোনটিই নয়

पारिस्थितिकी प्रणालीमा ऊर्जा प्रवाहित हुने गर्छ —

- (A) दिशाहीन (B) द्विदिशा (C) बहुदिशा (D) कुनै पनि होइन

17. An example of In-situ conservation is —

- (A) Gene Bank (B) National Parks (C) Zoo (D) Botanical garden

स्वस्थानी संरक्षण का एक उदाहरण है —

- (A) जीन बैंक (B) राष्ट्रीय पार्क (C) चिड़ियाघर (D) वानस्पतिक उद्यान

‘In-situ’ সংরক্ষণ-এর উদাহরণ হল —

- (A) জিন ব্যাঙ্ক (B) জাতীয় উদ্যান (C) চিড়িয়াখানা (D) উদ্ভিদ উদ্যান

स्वस्थानी संरक्षण (In-situ conservation) का एउटा उदाहरण हुन् —

- (A) जीन बैंक (B) राष्ट्रीय पार्क (C) चिडियाखाना (D) बानस्पतिक बगैचा

18. The ‘Earth Summit’ was held in the year —

- (A) 1992 (B) 1990 (C) 1989 (D) 2001

‘वैश्विक शिखर सम्मेलन’ हुआ था —

- (A) 1992 (B) 1990 (C) 1989 (D) 2001

বসুন্ধরা সম্মেলন (Earth Summit) কোন্ বছরে অনুষ্ঠিত হয় ?

- (A) ১৯৯২ (B) ১৯৯০ (C) ১৯৮৯ (D) ২০০১

‘वैश्विक शिखर सम्मेलन’ भएको वर्ष थियो —

- (A) 1992 (B) 1990 (C) 1989 (D) 2001

19. Identify the correctly matched pair —

(A) Basel convention — Biodiversity Conservation

(B) Kyoto Protocol — Climate Change

(C) Montreal Protocol — Global Warming

(D) Ramsar Convention — Groundwater Pollution

सही मिलान की गयी जोड़ी को पहचानिए —

(A) बेसल कन्वेंशन—जैव विविधता संरक्षण (B) क्योटो प्रोटोकॉल—जलवायु परिवर्तन

(C) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल—ग्लोबल वार्मिंग (D) रामसर कन्वेंशन—भूजल प्रदूषण

সঠিক মানানসই যুগ্মকে সনাক্তকরণ করো —

(A) বাসেল সম্মেলন — জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ (B) কিয়োটো দলিল — আবহাওয়া পরিবর্তন

(C) মন্ট্রিয়াল দলিল — বিশ্ব উষ্ণায়ন (D) রামসার সম্মেলন — ভূগর্ভস্থ জলীয় দূষণ

सठीक मिलेको जोडी चिन्नुहोस् —

(A) बेसल कन्भेन्सन—जैव विविधता संरक्षण (B) क्योटो प्रोटोकल—जलवायु परिवर्तन

(C) मान्द्रियल प्रोटोकल—ग्लोबल वार्मिङ (D) रामसार कन्भेन्सन—भूमिजल प्रदुषण

20. Ecosystem consist of —
 (A) Producer (B) Consumer (C) Decomposer (D) All of these
 पारिस्थितिकी तंत्र में निहित होता है —
 (A) उत्पादक (B) उपभोक्ता (C) अपघटक (D) इनमें से सभी
 বাস্তুতন্ত্র গঠিত হয় —
 (A) উৎপাদক (B) খাদক (C) বিয়োজক (D) সবগুলি
 पारिस्थितिकी तन्त्रमा समावेश छ —
 (A) उत्पादक (B) उपभोक्ता (C) अपघटक (D) यी जम्मै
21. Ecotone is characterised by —
 (A) Forest ecosystem (B) Transition zone between two ecosystem
 (C) Terrestrial ecosystem (D) Zone of transition between Water and Land
 इकोटोन की विशेषता है —
 (A) वन पारिस्थितिकी तंत्र (B) दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संक्रमण क्षेत्र
 (C) स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र (D) जल और भूमि के बीच संक्रमणका क्षेत्र
 ইকোটন চিহ্নিত করা হয় —
 (A) বন বাস্তুতন্ত্রে (B) দুটি ইকোসিস্টেমের মধ্যকার ট্রান্সমিশন অঞ্চল
 (C) স্থলজ বাস্তুতন্ত্র (D) জল ও ভূমির মধ্যকার ট্রানজিশন অঞ্চল
 'इकोटोन' का विशेषता हुन् —
 (A) वन-पारिस्थितिकी तन्त्र (B) दुई पारिस्थितिकी तन्त्र बिच संक्रमण क्षेत्र
 (C) स्थलीय पारिस्थितिकी तन्त्र (D) जल अनि भूमि बिच सङ्क्रमण क्षेत्र
22. Animals living at the bottom of the sea are called —
 (A) Lotic (B) Lentic (C) Benthic (D) Pelagic
 समुद्र के तल पर रहने वाले जीव को कहते हैं —
 (A) लॉटिक (B) लेनटिक (C) बेनथिक (D) पेलागिक
 সমুদ্রের তলদেশে বসবাসকারী প্রাণীদের বলা হয় —
 (A) লোটিক (B) লেন্টিক (C) বেথিক (D) পেলাজিক
 समुद्रतलमा बस्ने जीवलाई भनिन्छ —
 (A) लोटिक (B) लेनटिक (C) बेनथिक (D) पेलागिक
23. The Wildlife Protection Act was passed in —
 (A) 1952 (B) 1955 (C) 1972 (D) 1982
 'वन्य जीव अधिनियम' पारित हुआ था —
 (A) 1952 (B) 1955 (C) 1972 (D) 1982
 বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন পাশ হয় —
 (A) ১৯৫২ (B) ১৯৫৫ (C) ১৯৭২ (D) ১৯৮২
 'वन्य जीवन अधिनियम' पारित भएको वर्ष थियो —
 (A) 1952 (B) 1955 (C) 1972 (D) 1982
24. MAB Stands for —
 (A) Man and Biology Programme (B) Mammals and Biology Programme
 (C) Mammals and Biospheres (D) Man and Biospheres

MAB का अर्थ है –

- (A) मनुष्य और वनस्पति कार्यक्रम (B) स्तनधारी और वनस्पति कार्यक्रम
(C) स्तनधारी और जैवमण्डल (D) मनुष्य और जैवमण्डल

MAB-এর অর্থ হল —

- (A) মানুষ ও জীববিজ্ঞান প্রোগ্রাম (B) স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং জীববিজ্ঞান প্রোগ্রাম
(C) স্তন্যপায়ী এবং জীবমণ্ডল (D) মানুষ এবং বায়োস্ফিয়ার প্রোগ্রাম

MAB का अर्थ हुन्छ –

- (A) मनुष्य अनि जीवविज्ञानिक कार्यक्रम (B) स्तनपायी अनि जीवविज्ञानिक कार्यक्रम
(C) स्तनपायी अनि जैवमण्डल (D) मनुष्य अनि जैवमण्डल

25. Which wavelength of ultra-violet light of sunlight combine with Ozone molecule?

- (A) Ultraviolet-A (B) Ultraviolet-C (C) Ultraviolet-B (D) None of these

सूर्य के प्रकाश के पराबैगनी प्रकाश की कौन सी तरंग दैर्घ्य ओजोन आणविक के साथ मिलती है ?

- (A) पराबैगनी-A (B) पराबैगनी-C (C) पराबैगनी-B (D) इनमें से कोई नहीं

সূর্যালোকের UV আলোর কোন্ তরঙ্গদৈর্ঘ্য ওজোন অণুর সাথে মিলিত হয় ?

- (A) আল্ট্রাভায়োলেট-A (B) আল্ট্রাভায়োলেট-C (C) আল্ট্রাভায়োলেট-B (D) কোনোটিই নয়

सूर्यको प्रकाशका पराबैगनी प्रकाशका कुन तरङ्ग ओजोन आणविकसित छुलमिल हुन्छ ?

- (A) पराबैगनी-A (B) पराबैगनी-C (C) पराबैगनी-B (D) कुनै पनि होइन

26. Which is the most common gas released from the landfills?

- (A) Carbon monoxide (B) Methane (C) Hydrogen Sulphide (D) Carbon dioxide

गड्डों की भरई से निकलने वाली सबसे आम गैस कौन सी है ?

- (A) कार्बन मोनोऑक्साइड (B) मिथेन
(C) हाइड्रोजन सल्फाइड (D) कार्बन-डाइ-ऑक्साइड

ল্যান্ডফিল থেকে সবচেয়ে সাধারণ কোন্ গ্যাস নির্গত হয় ?

- (A) কার্বন মনোক্সাইড (B) মিথেন (C) হাইড্রোজেন সালফাইড (D) কার্বন ডাইঅক্সাইড

खाद भरिएको ठाउँबाट निस्कने साधारण ग्यास कुन हो ?

- (A) कार्बन-मोनोअक्साइड (B) मिथेन
(C) हाइड्रोजन सल्फाइड (D) कार्बन-डाइ-अक्साइड

27. Increase in atmospheric temperature due to CO₂ is called —

- (A) Pasteur effect (B) Greenhouse effect (C) Emerson effect (D) Blackman effect

CO₂ के कारण वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि को कहते हैं —

- (A) पाश्चर प्रभाव (B) हरितगृह प्रभाव (C) इमर्सन प्रभाव (D) ब्लैकमैन प्रभाव

CO₂-এর জন্য বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে বলে —

- (A) পাস্তুর এফেক্ট (B) গ্রীনহাউস এফেক্ট (C) এমারসন এফেক্ট (D) ব্ল্যাকম্যান এফেক্ট

CO₂ का कारण वायुमण्डलमा बढने गरेको तापमानलाई भनिन्छ —

- (A) पाश्चर प्रभाव (B) हरितगृह प्रभाव (C) इमर्सन प्रभाव (D) ब्लैकमैन प्रभाव

28. Taj Mahal is threatened to the effect of —

- (A) Chlorine (B) Sulphur dioxide (C) Oxygen (D) Hydrogen

ताजमहल को खतरा है —

- (A) क्लोरीन (B) सल्फयूरीक-डाई-ऑक्साइड
(C) ऑक्सीजन (D) हाइड्रोजन

তাজমহল প্রভাবিত হয় —

- (A) ক্লোরিন (B) সালফার-ডাই-অক্সাইড (C) অক্সিজেন (D) হাইড্রোজেন

তাজমহললাই খতরাকো প্রभाव छ —

- (A) ক্লোরিন (B) সল্ফ্যুরিক ডাই অক্সাইড
(C) অক্সিজেন (D) হাইড্রোজেন

29. Typhoid, Cholera and Dysentery are diseases that are spread by —

- (A) Air pollution (B) Water pollution
(C) Land/Soil pollution (D) The use of Pesticides

आंत्रज्वर, हैजा और पेचिश रोग हैं जो फैलते हैं —

- (A) वायु प्रदूषण (B) जल प्रदूषण
(C) भूमि/मिट्टी प्रदूषण (D) कीटनाशकों का उपयोग

टाइफয়েड, कलेरा, आमाशय এই রোগগুলি ছড়িয়ে পড়ে কীসের দ্বারা ?

- (A) বায়ুদূষণ (B) জলদূষণ
(C) মৃত্তিকা দূষণ (D) কীটনাশক ব্যবহারে

टाइफाइड, हैजा अनि पखालाजस्ता रोगहरू फैलनुमा —

- (A) वायु प्रदूषण (B) जल प्रदूषण
(C) भूमि/माटो प्रदूषण (D) किटनाशकको प्रयोग

30. Biodegradable pollutant is —

- (A) Plastic (B) Sewage (C) Asbestos (D) All of these

जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है —

- (A) प्लास्टिक (B) मल (C) अदह (D) इनमें से सभी

बायोडिग्रेडेबल दूषक हल —

- (A) प्लास्टिक (B) ড্রেনের ময়লা (C) অ্যাসবেসটস (D) সবগুলি

जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक हुन् —

- (A) प्लास्टिक (B) मल (C) अदह (D) यी जम्मै

31. DDT is —

- (A) Carbamate (B) Organochlorine (C) Triazine (D) Organophosphates

DDT है —

- (A) कार्बामेट (B) ऑर्गানোকलोरीन (C) ट्रियाजिन (D) ऑर्गানो फॉस्फेट

DDT हल —

- (A) कार्बामेट (B) অরগানোক্লোরিন (C) ট্রিয়াজিন (D) অরগানোফসফেট

DDT हुन् —

- (A) कार्बामेट (B) অর্গানো ক্লোরিন (C) ট্রিয়াজিন (D) অর্গানো ফস্ফেট

32. Eutrophication is found in —

- (A) Agricultural Land (B) Saline Soil (C) Lake (D) Mountain

सुपोषण पाया जाता है —

- (A) कृषि भूमि (B) खारी मिट्टी (C) झील (D) पहाड़

ইউট্রোফিকেশন পাওয়া যায় —

- (A) কৃষিজাত জমি (B) লবণাক্ত মৃত্তিকা (C) হ্রদ (D) পর্বত

- सुपोषण पाइन्ड –
 (A) कृषि भूमि (B) नुनिलो माटो (C) झील (D) पर्वत
33. Phytoplankton are —
 (A) Saprotrophs (B) Autotrophs (C) Heterotrophs (D) All of these
 पादप प्लवक हैं –
 (A) मृतजीवी (B) स्वपोषक (C) विषम पोषक (D) इनमें से सभी
 फाइटोप्लान्कटन हल —
 (A) स्याप्रोट्रिपस (B) अटोट्रिपस (C) हेटैरोट्रिपस (D) सबगुलि
 पादप प्लवक हुन् –
 (A) मृतपोषी (B) स्वपोषक (C) परपोषी (D) यी जम्मै
34. The largest unit of ecosystem —
 (A) Lithosphere (B) Biosphere (C) Troposphere (D) Ionosphere
 पारिस्थितिकी तंत्र की लम्बी इकाई है –
 (A) स्थलमंडल (B) जीव मंडल (C) क्षोभ मंडल (D) आयन मंडल
 बास्तुतश्चर बृहत्तम एकक हल —
 (A) लिथोस्फियर (B) बायोस्फियर (C) ट्रोपोस्फियर (D) आयनोस्फियर
 पारिस्थितिकी तन्त्रका वृहत एकाइ हुन् –
 (A) स्थलमण्डल (B) जीवमण्डल (C) क्षोभमण्डल (D) आयनमण्डल
35. Who first gave the idea of ecological pyramid?
 (A) Elton (B) Odum (C) Ernst Haeckel (D) Darwin
 पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने दिया ?
 (A) एल्टन (B) ओडुम (C) अन्स्ट हैकेल (D) डार्विन
 बास्तुताश्चिक पिरामिड-एर धारणा प्रथम के देन ?
 (A) एलटन (B) ओडाम (C) आर्नेस्ट हैकेल (D) डारउईन
 पारिस्थितिकी पिरामिडका अवधारणा सर्वप्रथम कसले दिएका हुन् –
 (A) एल्टन (B) ओडुम (C) अन्स्ट हैकेल (D) डार्विन
36. Deforestation generally decreases —
 (A) Global Warming (B) Drought (C) Soil erosion (D) Rainfall
 वनों की कटाई से आमतौर पर घट जाती है –
 (A) ग्लोबल वार्मिंग (B) सूखा (C) भू-क्षरण (D) वर्षा
 अरण्यविनाश साधारणत ह्रास करे —
 (A) विश्वउष्णयन (B) खरा (C) मृत्तिकारक्षय (D) वृष्टिपात
 वन विनाशले साधारणत घटाउने गर्छन् –
 (A) ग्लोबल वार्मिङ् (B) खडेरी (C) भू-क्षरण (D) वर्षा
37. Solid Waste Management includes —
 (A) Collection (B) Disposal (C) Recycling (D) All of these
 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में समाविष्ट है –
 (A) संग्रह (B) निपटान (C) पुनर्चक्रण (D) इनमें से सभी
 कठिन बर्ज्य व्यवस्थापनार अशुर्भुक्त हल —
 (A) संग्रह (B) अपसारण (C) पुनर्वावहार (D) सबगुलिइ

'ढोस ढोहोर ढुरबन्धन' ढिन्न सढाविस्ट हुन्छ –

- (A) सङ्ग्रह (B) निढतान (C) ढुनर्चक्रण (D) उढरोक्त सबै

38. Sunderlal Bahuguna's name is associated with which of the following —

- (A) Narmada Bachao Andolan (B) Chipko Movement
(C) Silent Valley (D) Green Revolution

निम्नलिखित में से किसके साथ सुंदरलाल बहुगुना का नाम जुड़ा हुआ है –

- (A) नर्मदा बचाओ आंदोलन (B) चिपको आंदोलन
(C) साइलेंट वैली (D) हरित क्रांति

निम्नलिखित कोनांটির সাথে सुन्दरलाल बहुगुना का नाम जुड़ा है ?

- (A) नर्मदा बाँचाओ आन्दोलन (B) चिपको आन्दोलन
(C) साइलेंट वैली आन्दोलन (D) सबुज विप्लव

सुन्दरलाल बहुगुनाको नाम निम्नलिखित मध्ये कुनसँग गाँसिएको छ –

- (A) नर्मदा बचाऊ आन्दोलन (B) चिपको आन्दोलन
(C) साइलेन्ट वैली (D) हरितक्रान्ति

39. Development but not at the cost of environment is called —

- (A) Sustainable development (B) Unsustainable development
(C) Non-sustainable development (D) None of these

'विकास पर पर्यावरण की कीमत पर नहीं' को कहा जाता है –

- (A) सतत विकास (B) अरक्षणीय विकास (C) गैर टिकाऊ विकास (D) इनमें से कोई नहीं

'পরিবেশের ক্ষতি না করে উন্নয়ন'-এর মানে —

- (A) স্থিতিশীল উন্নয়ন (B) অস্থিতিশীল উন্নয়ন (C) অস্থায়ী উন্নয়ন (D) কোনোটিই নয়

'विकास तर पर्यावरणको मूल्यमा होइन'-लाई भनिन्छ –

- (A) सतत विकास (B) अरक्षणीय विकास (C) गैर-सतत विकास (D) कुनै पनि होइन

40. Which of the following is responsible for desertification?

- (A) Deforestation (B) Mining (C) Overgrazing (D) All of these

निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है ?

- (A) वनों की कटाई (B) खनन (C) अति-चारन (D) इनमें से सभी

নিম্নের কোনটি মরুভূমির জন্য দায়ী ?

- (A) অরণ্যবিনাশ (B) খনন (C) পশুচারণ (D) সবকটি

मरुस्थलीकरण दुनुमा निम्नलिखित कुन उत्तरदायी छ –

- (A) बन विनाश (B) खानी (C) अतिचारन (D) यी जम्मै

41. Green Revolution is associated with —

- (A) Sericulture (B) Agriculture (C) Pisciculture (D) Silviculture

हरित क्रांति संबंधित है –

- (A) रेशम कीट पालन (B) कृषि (C) मछली पालन (D) जंगल विज्ञान

'सबुज विप्लव'-এর সাথে সম্পর্কিত —

- (A) সেরিকালচার (B) কৃষি (C) মৎস্য কালচার (D) সিলভি কালচার

'हरित क्रान्ति' सम्बन्धित छन् –

- (A) रेशमकिरा पालन (B) कृषि (C) माछा पालन (D) जङ्गल-विज्ञान

42. What is produced by the fusion and fission of the nucleus?
 (A) Hydroelectric (B) Thermal power
 (C) Solar power (D) Nuclear power
 नाभिक के विलय और विखंडन से क्या उत्पादित होता है ?
 (A) जल विद्युत (B) तापीय ऊर्जा
 (C) सौर्य ऊर्जा (D) परमाणु ऊर्जा
 নিউক্লিয়াসের সংযোজন ও বিভাজন ঘটিয়ে উৎপন্ন করা হয় —
 (A) জলবিদ্যুৎ (B) তাপবিদ্যুৎ (C) সৌরবিদ্যুৎ (D) পারমাণবিক বিদ্যুৎ
 केन्द्रकको विलयन र विखण्डनबाट के उत्पादित हुन्छ ?
 (A) जल विद्युत (B) तापीय ऊर्जा (C) सौर्य ऊर्जा (D) परमाणु ऊर्जा
43. Where are the genes of rare plants species stored —
 (A) Gene bank (B) Gene library (C) Seed bank (D) None of these
 दुर्लभ प्रजाति के पौधों के जीन (Genes) को कहाँ जमा या इकट्ठा किया जाता है ?
 (A) जीन बैंक (B) जीन पुस्तकालय (लाइब्रेरी)
 (C) बीज बैंक (D) इनमें से कोई नहीं
 বিরল প্রজাতির উদ্ভিদের জীনগুলি কোথায় সংগ্রহ করে রাখা হয় ?
 (A) জিন ব্যাঙ্ক (B) জিন লাইব্রেরী
 (C) बीज ব্যाङ्क (D) এদের কোনোটিই নয়
 दुर्लभप्रायः प्रजातिका उद्भिदका जीन (Genes) लाई कहाँ भण्डार गरिन्छ ?
 (A) जीन बैंक (B) जीन लाइब्रेरी
 (C) बीज बैंक (D) कुनै पनि होइन
44. The efficiency of energy flow in the ecosystem is about —
 (A) 1% (B) 3% (C) 5% (D) 10%
 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के बहाव में कमी होती है —
 (A) 1% (B) 3% (C) 5% (D) 10%
 বাস্তুতন্ত্রের কার্যকারিতা হিসাবে শক্তিপ্রবাহ ঘটে —
 (A) ১% (B) ৩% (C) ৫% (D) ১০%
 पारिस्थितिकी तन्त्रमा ऊर्जाका बहावमा कमी हुन्छ —
 (A) 1% (B) 3% (C) 5% (D) 10%
45. Which of the following is a biodiversity hot spot in India?
 (A) Western Ghat (B) Nandadevi
 (C) Eastern Ghat (D) Sunderban
 निम्नलिखित में से भारत का जैवविविधता हॉट स्पॉट कौन सा है ?
 (A) पश्चिमी घाट (B) नंदा देवी (C) पूर्वी घाट (D) सुंदरवन
 নিম্নলিখিত কোনটি ভারতবর্ষের জীববৈচিত্র্যের হট স্পট —
 (A) পশ্চিমঘাট (B) নন্দাদেবী (C) পূর্বঘাট (D) সুন্দরবন
 निम्नलिखित मध्ये भारतका जैव-विविधताका 'हॉट-स्पॉट' कुनचाहिं हो ?
 (A) पश्चिमी घाट (B) नन्दादेवी (C) पूर्वी घाट (D) सुन्दरवन
46. Which of the following causes of COVID-19 —
 (A) Bacteria (B) Virus (C) Protozoa (D) Fungi

निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 का कारण बनता है ?

- (A) बैक्टेरिया (B) वायरस (C) प्रोटोजोआ (D) कवक (फंगी)

নিম্নের কোনটি কোভিড-১৯-এর কারণ ?

- (A) ব্যাকটেরিয়া (B) ভাইরাস (C) প্রোটোজোয়া (D) ছত্রাক

निम्नलिखित मध्ये कुनचाहिं कोविड-19 का कारण बन्न सक्छन् –

- (A) बैक्टेरिया (B) भाइरस (C) प्रोटोजोआ (D) ढुँडी (फन्गी)

47. Which of the following is a secondary pollutant?

- (A) PAN (B) SPM (C) SO₂ (D) NO₂

निम्नलिखित में से द्वितीय प्रदूषण क्या है –

- (A) PAN (B) SPM (C) SO₂ (D) NO₂

নিম্নের কোনটি গৌণ দূষক ?

- (A) PAN (B) SPM (C) SO₂ (D) NO₂

निम्नलिखित मध्ये द्वितीय प्रदूषण कुन हो –

- (A) PAN (B) SPM (C) SO₂ (D) NO₂

48. Which of the following is an endemic species of India?

- (A) Asiatic elephant (B) Lion-tailed macaque
(C) Whale (D) Panda

निम्नलिखित में से भारत की स्थानिक प्रजातियां हैं –

- (A) एशियाई हाथी (B) शेर की पूंछवाला मकाक
(C) व्हेल (D) पांडा

নিম্নলিখিত কোনটি ভারতীয় এন্ডেমিক (স্থানীয়) প্রজাতি ?

- (A) এশীয় হাতি (B) লায়ন-টেইলড ম্যাকাও
(C) তিমি (D) পাণ্ডা

निम्नलिखित मध्ये भारतका स्थानीय प्रजातीहरू हुन् –

- (A) एशियाली हाती (B) सिंहको पुच्छर भएको लङ्गुर
(C) व्हेल (D) पान्डा

49. Full form of WWF —

- (A) World Water Forum (B) World War Fund
(C) World Wide Fund for Nature (D) World Wildlife Fund

WWF का पूर्ण रूप –

- (A) वर्ल्ड वाटर फोरम (B) वर्ल्ड वार फन्ड
(C) वर्ल्ड वाइड फन्ड फॉर नेचर (D) वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ड

WWF-এর সম্পূর্ণ নাম কি ?

- (A) World Water Forum (B) World War Fund
(C) World Wide Fund for Nature (D) World Wildlife Fund

WWF का पूर्ण रूप –

- (A) वर्ल्ड वाटर फोरम (B) वर्ल्ड वार फन्ड
(C) वर्ल्ड वाइड फन्ड फार नेचर (D) वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ड

50. Scientific Study of the interactions of organisms with the physical environment is called —

- (A) Ecosystem (B) Ecology (C) Environment (D) Trophic Structure

भौतिक पर्यावरण के साथ जीवों की अंतःक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है –

- (A) पारिस्थितिकी तंत्र (B) पारिस्थितिकी (C) पर्यावरण (D) पोषी संरचना

প্রাণী ও তার ভৌত পরিবেশের আন্তঃক্রিয়ার বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়নকে বলে —

- (A) বাস্তুতন্ত্র (B) বাস্তুবিদ্যা (C) পরিবেশ (D) পুষ্টিস্তরের গঠন

जीवाणुको अन्तर्क्रियाको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने भौतिक पर्यावरणलाई भनिन्छ –

- (A) पारिस्थितिकी तन्त्र (B) पारिस्थितिकी (C) पर्यावरण (D) पोषी संरचना

51. Baba Amte and Medha Patkar is associated with which of the following movement —

- (A) Narmada Bachao Andolan (B) Silent Valley Movement
(C) Chipko Movement (D) Bishnoi Movement

निम्नलिखित में से किस आंदोलन से बाबा आम्टे और मेधा पाटकर जुड़ी हैं ?

- (A) नर्मदा बचाओ आंदोलन (B) साइलेंट वैली आंदोलन
(C) चिपको आंदोलन (D) बिस्नोइ आंदोलन

बाबा आम्ते एवं मेधा पाटेंकार निम्नलिखित कौन आन्दोलनसँग जुक्त —

- (A) नर्मदा बाँचाओ आन्दोलन (B) साइलेंट भ्यालि आन्दोलन
(C) चिपको आन्दोलन (D) बिसेण्हाई आन्दोलन

निम्नलिखित कुन आन्दोलनसित बाबा आम्टे अनि मेधा पाटकरको नाम जोडिएका छन् –

- (A) नर्मदा बचाऊ आन्दोलन (B) साइलेन्ट वैली आन्दोलन
(C) चिपको आन्दोलन (D) बिस्नोइ आन्दोलन

52. Which of the following waste is the most dangerous and long-lasting?

- (A) Bio-medical waste (B) Ash from Volcano
(C) Mining Waste (D) Nuclear waste

निम्नलिखित में से सबसे खतरनाक और बहुत दिनों तक रहने वाला अपशिष्ट है –

- (A) बायोमेडिकल या अस्पताल का कचरा (B) ज्वालामुखीय राख
(C) खान अपशिष्ट (D) परमाणु अपशिष्ट

নিম্নের কোন বর্জ্য বিপজ্জনক এবং দীর্ঘস্থায়ী ?

- (A) জৈব চিকিৎসাজনিত বর্জ্য (B) আগ্নেয়গিরির ছাই
(C) খনিজ বর্জ্য (D) পারমাণবিক বর্জ্য

निम्नलिखित सबैभन्दा खतरनाक अनि धेरै दिनसम्म रहनसक्ने अपशिष्ट (फोहोर) हुन् –

- (A) बायोमेडिकल एवं अस्पतालका मैला (B) ज्वालामुखीय खरानी
(C) खानीको फोहोर (D) परमाणु अपशिष्ट

53. The major objective of family welfare programmes in India is —

- (A) Disease control (B) Employment generation
(C) Population growth rate control (D) None of these

भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की मुख्य विशिष्टता है –

- (A) रोग नियंत्रण (B) रोजगार उत्पादन
(C) जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रण (D) इनमें से कोई नहीं

ভারতবর্ষের পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হল —

- (A) রোগ নিয়ন্ত্রণ (B) কর্মসংস্থান সৃষ্টি
(C) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ (D) কোনোটিই নয়

भारतमा परिवार कल्याण कार्यक्रमका मुख्य विशेषता हुन् –

- (A) रोग नियन्त्रण (B) रोजगार उत्पादन
(C) जनसङ्ख्या वृद्धि दर नियन्त्रण (D) कुनै पनि होइन

54. Full form of WHO is —

- (A) World Human Organization (B) Women Health Organization
(C) World Harmonic Organization (D) World Health Organization

WHO का पूर्ण रूप है –

- (A) वर्ल्ड ह्युमन ऑरगनाइजेशन (B) वुमेन हेल्थ ऑरगनाइजेशन
(C) वर्ल्ड हारमोनिक ऑरगनाइजेशन (D) वर्ल्ड हेल्थ ऑरगनाइजेशन

WHO-এর সম্পূর্ণ নাম কি —

- (A) World Human Organization (B) Women Health Organization
(C) World Harmonic Organization (D) World Health Organization

WHO का पूर्ण रूप हो –

- (A) वर्ल्ड ह्युमन अर्गनाइजेसन (B) वुमेन हेल्थ अर्गनाइजेसन
(C) वर्ल्ड हारमोनिक अर्गनाइजेसन (D) वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन

55. The complex network of interconnected food chains is called —

- (A) Food Web (B) Food Network (C) Trophic levels (D) Food pyramid

भोजन श्रृंखला का परस्पर जटिल अन्तर्जाल कहलाता है –

- (A) फूड वेब (B) फूड नेटवर्क (C) पौष्टिकता स्तर (D) खाद्य पिरामिड

বাস্তবতন্ত্রের আন্তঃ সম্পর্কযুক্ত জটিল জালকে বলা হয় —

- (A) খাদ্য জালিকা (B) খাদ্য সংযোগ (C) পুষ্টিস্তর (D) খাদ্য পিরামিড

खाद्य श्रृंखलाका परस्पर जटिल अन्तर्जाललाई भनिन्छ –

- (A) फुड वेब (B) फुड नेटवर्क (C) ट्रपिक लेभल (D) फुड पिरामिड

56. Ear muffs or Cotton plugs are used to reduce pollution of —

- (A) Air (B) Nuclear (C) Noise (D) Thermal

कान मक्स या कान प्लग का प्रयोग किया जाता है प्रदूषण कम करने के लिए –

- (A) वायु (B) नाभिकीय (C) ध्वनि (D) तापीय

কানের মাফ বা সূতির প্লাগগুলি কোন্ দূষণ প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয় ?

- (A) বায়ু (B) পারমাণবিক (C) শব্দ (D) তাপীয়

कान मक्स र कपास प्लगका प्रयोग निम्न प्रदुषण कम गर्नका लागि गरिन्छ –

- (A) वायु (B) नाभिकीय (C) ध्वनि (D) तापीय

57. Matter must be recycled again and again by an ecological process called —

- (A) Ecological pyramid (B) Ecological Succession
(C) Biogeochemical cycle (D) Energy flow

पारिस्थितिक प्रक्रिया द्वारा बार-बार पुनर्नवीनीकरण किया जाना चाहिए जिसे कहा जाता है –

- (A) पारिस्थितिक पिरामिड (B) पारिस्थितिक अनुक्रम
(C) जैव-भू-रासायनिक चक्र (D) ऊर्जा प्रवाह

বাস্তবস্থানগত পদ্ধতির সাহায্যে কোন্ পদার্থের বার বার পুনঃব্যবহৃত হওয়াকে বলে —

- (A) বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড (B) বাস্তুতান্ত্রিক প্রজাতি পরিবর্তন
(C) জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্র (D) শক্তিপ্রবাহ

पारिस्थितिकी प्रक्रियाद्वारा घरिघरि पुनर्नवीकरण गरिने वस्तुलाई भनिन्छ –

- (A) पारिस्थितिकी पिरामिड (B) पारिस्थितिक अनुक्रम
(C) जैव-भू-रासायनिक-चक्र (D) ऊर्जा प्रवाह

58. 'Agenda-21' is related with —

- (A) Earth Summit (B) Montreal Protocol
(C) Kyoto Protocol (D) Johannesburg Declaration

एजेन्डा 21 संबन्धित है –

- (A) वैश्विक शिखर सम्मेलन (B) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
(C) क्योटो प्रोटोकॉल (D) जोहान्सबर्ग घोषणा

'Agenda-21' यार सङ्गे सम्पर्कित —

- (A) वसुन्करा सम्मेलन (B) मन्ट्रियल प्रोटोकल
(C) कियोटो प्रोटोकल (D) जोहान्सबर्ग घोषणापत्र

'एजेन्डा 21' सम्बन्धित छ –

- (A) वैश्विक शिखर सम्मेलन (B) मोन्ट्रियल प्रोटोकल
(C) क्योटो प्रोटोकल (D) जोहान्सबर्ग घोषणा

59. Largest Dam in India is —

- (A) Hirakud (B) Tehri
(C) Sardar Sarovar (D) Bhakra-Nangal

भारत का विशालतम बांध है –

- (A) हीराकुंड (B) टिहरी
(C) सरदार सरोवर (D) भाखड़ा-नंगल

ভারতের বৃহত্তম বাঁধ হল —

- (A) হীরাकुঁদ (B) তেহরী
(C) সর্দার সরোবর (D) ভাকরা-নাঙ্গাল

भारतका बृहत्तम बाँध हुन् –

- (A) हीराकुन्ड (B) टिहरी (C) सरदार सरोवर (D) भाखडा-नंगल

60. The first International Environmental Conference was held at —

- (A) New Delhi (B) New York (C) Japan (D) Stockholm

प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था –

- (A) नई दिल्ली (B) न्यूयॉर्क (C) जापान (D) स्टॉकहोम

প্রথম “পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন” অনুষ্ঠিত হয়েছিল —

- (A) নিউ দিল্লী (B) নিউ ইয়র্ক (C) জাপান (D) স্টকহোম

प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन आयोजित गरिएको थियो –

- (A) नयाँ दिल्ली (B) न्युर्योक (C) जापान (D) स्टाकहोम

61. Lignite, bituminous and anthracite are different types of —

- (A) Nuclear fuel (B) Coal (C) Natural gas (D) Biogas

लिग्नाइट, बिटुमिनस और एन्थ्रेसाइट विभिन्न प्रकार हैं –

- (A) परमाणु ईंधन (B) कोयला (C) प्राकृतिक गैस (D) बायोगैस

लिगनाईट, बिटुमिनास एवं अयानथासाईट हल विभिन्न धरनेर —

(A) पारमाणविक ज्वालानी (B) कयला (C) प्राकृतिक ग्यास (D) बायोग्यास

लिगनाईट, बिटुमिनस अनि एन्थ्रेसाइड विभिन्न प्रकारका हुन् —

(A) परमाणु ईंधन (B) कोइला (C) प्राकृतिक ग्यास (D) बायोग्यास

62. Zone consisting air, water and soil is known as —

(A) Hydrosphere (B) Atmosphere
(C) Lithosphere (D) Biosphere

वायु, जल और मिट्टीवाले क्षेत्र को कहा जाता है —

(A) जलमंडल (B) वायुमंडल
(C) स्थलमंडल (D) जैव मंडल

वायु, जल एवं माटि নিয়ে গঠিত অঞ্চল হিসাবে পরিচিত —

(A) হাইড্রোস্ফিয়ার (B) বায়ুমণ্ডল
(C) লিথোস্ফিয়ার (D) জীবমণ্ডল

वायु, जल अनि माटो भएका क्षेत्रलाई भनिन्छ —

(A) जलमण्डल (B) वायुमण्डल
(C) स्थलमण्डल (D) जैवमण्डल

63. Full form of CNG is —

(A) Common National Gas (B) Compressed Natural Gas
(C) Common Natural Gas (D) Certified Natural Gas

CNG का पूर्ण रूप है —

(A) कॉमन नैशनल गैस (B) कम्प्रेस्ड नैचरल गैस
(C) कॉमन नैचरल गैस (D) सर्टीफाइड नैचरल गैस

CNG-এর পূর্ণরূপ —

(A) Common National Gas (B) Compressed Natural Gas
(C) Common Natural Gas (D) Certified Natural Gas

CNG का पूर्ण रूप हो —

(A) कमन नेसनल ग्यास (B) कम्पोज्ड नैचरेल ग्यास
(C) कमन नेचरल ग्यास (D) सर्टीफाइड नेचरल ग्यास

64. Plants are green because of the presence of a pigment called —

(A) Glucose (B) Nitrogen (C) Chlorophyll (D) Oxygen

पौधे हरे रंग के होते हैं क्योंकि उनमें वर्णक की उपस्थिति होती है —

(A) शर्करा (B) नाइट्रोजन (C) क्लोरोफिल (D) ऑक्सीजन

গাছপালা সবুজ হয় কারণ — নামক রঞ্জকটির উপস্থিতি —

(A) গ্লুকোজ (B) নাইট্রোজেন (C) ক্লোরোফিল (D) অক্সিজেন

उद्भिद् हरियो रंगको हुन्छ कारण तिनमा रंगद्रव्यका रूपमा उपस्थित हुन्छ —

(A) ग्लुकोज (B) नाइट्रोजन (C) क्लोरोफिल (D) अक्सीजन

65. Which of the following problems is not created by noise pollution?

(A) Diarrhoea (B) Hypertension (C) Deafness (D) Irritation

निम्नलिखित में से कौन सी समस्या ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं होती है ?

(A) दस्त (B) उच्च रक्तचाप (C) बहरापन (D) चिद्

নিচের কোন সমস্যা শব্দ দূষণের কারণে সৃষ্টি হয় না ?

- (A) ডায়রিয়া (B) উচ্চ রক্তচাপ (C) বধিরতা (D) জ্বালা

নিম্নলিখিত কুনচাৰ্হিঁ সমস্যা ধ্বনি প্রদূষণকা কারণ হুঁদৈন –

- (A) পখালা (B) উচ্চ রক্তচাপ (C) বহিরোপন (D) চিডচিডাহট

66. The group of organisms which convert light into food are called —

- (A) Autotrophs (B) Heterotrophs (C) Decomposers (D) Omnivores

जीवों के समूह जो प्रकाश को भोजन में परिवर्तित करते हैं, कहलाते हैं –

- (A) स्वपोषक (B) विषम पोषक (C) अपघटक (D) सर्वाहारी

যে সব জীবের দল আলোকে খাদ্যে রূপান্তরিত করে তাদের বলে —

- (A) অটোট্রফস (B) হেটেরোট্রফস (C) পচনশীল (D) সর্বভুক

जीवाणुहरूका समूह जसले प्रकाशलाई खाद्य रूपमा परिणत गर्दछ, जसलाई भनिन्छ –

- (A) स्वपोषक (B) विषम पोषक (C) अपघटक (D) सर्वाहारी

67. Carrier of Dengue disease is —

- (A) Aedes Mosquito (B) Culex Mosquito
(C) Housefly (D) Anopheles Mosquito

डेंगू रोग का वाहक है –

- (A) एडीज मच्छर (B) क्यूलेक्स मच्छर (C) मक्खी (D) एनाफिलीज मच्छर

ডেঙ্গু রোগের বাহক —

- (A) এডিস মশা (B) কিউলেক্স মশা (C) হাউসফ্লাই (D) অ্যানোফিলিস মশা

डेंगू रोगका वाहक हुन् –

- (A) एडीज मच्छर (B) क्यूलेक्स मच्छर (C) झींगा (D) एनोफिलिस मच्छर

68. Sustainable development goals have specific targets to be achieved by —

- (A) 2022 (B) 2030 (C) 2040 (D) 2050

सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य है –

- (A) 2022 (B) 2030 (C) 2040 (D) 2050

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে —

- (A) ২০২২ (B) ২০৩০ (C) ২০৪০ (D) ২০৫০

दिगो विकास प्राप्त गर्नका लागि तोकिएको लक्ष्य –

- (A) 2022 (B) 2030 (C) 2040 (D) 2050

69. Which of the following is not a natural hazard?

- (A) Wildfire (B) Lightning
(C) Landslide (D) Chemical contamination

निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक खतरा नहीं है ?

- (A) जंगल की आग (B) बिजली गिरना (C) भू-स्खलन (D) रासायनिक दूषण

নিচের কোন ঘটনাটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয় ?

- (A) দাবানল (B) বজ্রপাত (C) ভূমিধস (D) রাসায়নিক দূষণ

निम्नलिखित मध्ये कउनचार्हिँ प्राकृतिक खतरा होइनन् –

- (A) जङ्गलको आगो (B) बिजुली चम्कनु (C) भू-स्खलन (D) रासायनिक दुषण

70. In case of a parasitic food chain, the shape of the pyramid of number is always —
 (A) Upright (B) Linear (C) Inverted (D) Not Certain
 परजीवी खाद्य श्रृंखला के मामले में संख्या के पिरामिड का स्थान हमेशा रहता है —
 (A) सीधा (B) रैखिक (C) उल्टा (D) अनिश्चित
 একটি পরজীবী খাদ্যশৃঙ্খলের ক্ষেত্রে এর আকৃতি সংখ্যার পিরামিড সবসময় হয় —
 (A) খাড়া (B) রৈখিক (C) উল্টানো (D) নিশ্চিত নয়
 परजीवी खाद्य श्रृंखलामा पिरामिड सङ्ख्याको आकार सदैव हुने गर्छ —
 (A) सोझो (सीधा) (B) रैखिक (C) उल्टो (D) अनिश्चित
71. What percent of area in the plain should be under forest?
 (A) 21% (B) 25% (C) 17% (D) 33%
 स्थल भाग का कितना प्रतिशत जंगल होना चाहिए ?
 (A) 21% (B) 25% (C) 17% (D) 33%
 সমতলের কত শতাংশ এলাকা বনজঙ্গলের অধীনে থাকা উচিত ?
 (A) ২১% (B) ২৫% (C) ১৭% (D) ৩৩%
 स्थलभागका कति प्रतिशत जंग हुनुपर्छ ?
 (A) 21% (B) 25% (C) 17% (D) 33%
72. What does the high Biochemical Oxygen Demand (BOD) indicates —
 (A) High level of microbial pollution (B) Low level of microbial pollution
 (C) Absence of microbial pollution (D) Water is fully pure
 उच्च जैव रासायनिक ऑक्सीजन (BOD) की मांग क्या इंगित करती है ?
 (A) माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर (B) माइक्रोबियल प्रदूषण का निम्न स्तर
 (C) माइक्रोबियल प्रदूषण की अनुपस्थिति (D) पानी पूर्णतः शुद्ध
 উচ্চ জৈব রাসায়নিক অক্সিজেনের (BOD) চাহিদা নির্দেশ করে —
 (A) মাইক্রোবিয়াল দূষণের উচ্চস্তর (B) মাইক্রোবিয়াল দূষণের নিম্নস্তর
 (C) মাইক্রোবিয়াল দূষণের অনুপস্থिति (D) জল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ
 उच्च जैव रासायनिक अक्सीजन (BOD) का मागले के संकेत गर्छ —
 (A) माइक्रोबियल प्रदूषणका उच्च स्तर (B) माइक्रोबियल प्रदूषणका निम्न स्तर
 (C) माइक्रोबियल प्रदूषणका अनुपस्थिति (D) पानी पूर्णतः शुद्ध
73. Cultural environment refers to —
 (A) Mountains (B) Man-made environment
 (C) Wild environment (D) Marine environment
 सांस्कृतिक पर्यावरण से संदर्भित है —
 (A) पहाड़ों (B) मनुष्य निर्मित पर्यावरण
 (C) वन्य पर्यावरण (D) समुद्री पर्यावरण
 সাংস্কৃতিক পরিবেশ বলতে বোঝায় —
 (A) পর্বতমালা (B) মনুষ্য-সৃষ্ট পরিবেশ
 (C) বন্য পরিবেশ (D) সামুদ্রিক পরিবেশ
 सांस्कृतिक पर्यावरणसित सन्दर्भित छ —
 (A) पर्वतहरू (B) मानव निर्मित पर्यावरण
 (C) वन्य पर्यावरण (D) समुद्री पर्यावरण

74. The atmospheric layer from earth's surface to 18 km is known as —
 (A) Troposphere (B) Stratosphere (C) Mesosphere (D) Ionosphere
 पृथ्वी की सतह से 18 कि० मी० तक की वायुमंडलीय परत कहलाती है —
 (A) क्षोभ मंडल (B) समताप मंडल (C) मध्य मंडल (D) आयन मंडल
 ১৮ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলীয় স্তরটি পরিচিত হয় —
 (A) ট্রোপোস্ফিয়ার (B) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (C) মেসোস্ফিয়ার (D) আয়নোস্ফিয়ার
 पृथ्वीका सतहदेखि 18 कि० मी० सम्मका वायुमण्डलीय तहलाई भनिन्छ —
 (A) क्षोभ मण्डल (B) समताप मण्डल (C) मध्य मण्डल (D) आयन मण्डल
75. The salinization can be defined as —
 (A) Accumulation of Salts in the body (B) Accumulation of Salts in water
 (C) Accumulation of Salts in animals (D) Accumulation of Salts in the soil
 लवणीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है —
 (A) शरीर में नमक का जमा होना (B) पानी में नमक का जमा होना
 (C) जानवरों में नमक का जमा होना (D) मिट्टी में नमक का जमा होना
 লবণাক্তকরণকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে —
 (A) শরীরে লবণ জমে (B) জলে লবণ জমে (C) প্রাণীদের মধ্যে লবণ জমে (D) মাটিতে লবণ জমে
 लवणीकरणका रूपमा परिभाषित गरिन्छ —
 (A) शरीरमा नुन जमा हुनु (B) पानीमा नुन जमा हुनु
 (C) पशुहरूमा नुन जमा हुनु (D) माटामा नुन जमा हुनु
76. The uses of CFC are —
 (A) Insulators (B) Aerosol propellants
 (C) Refrigerants (D) All of these
 CFC के उपयोग हैं —
 (A) इंसुलेटर (B) एयरोसोल प्रणोदक (C) रेफ्रिजरेट (D) इनमें से सभी
 CFC-এর ব্যবহার হল —
 (A) অন্তরক (B) অ্যারোসল প্রোপেল্যান্ট (C) রেফ্রিজারেন্ট (D) সবকটি
 CFC का उपयोग हुन्छ —
 (A) इंसुलेटर (B) एरोसोल प्रणोदक (C) रेफ्रिजरेट (D) उपरोक्त सबै
77. CPCB Stands for —
 (A) Control Pollution Control Board (B) Central Pollution Central Board
 (C) Control Pollution Central Board (D) Central Pollution Control Board
 CPCB का मतलब है —
 (A) कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (B) सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड
 (C) कंट्रोल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड (D) सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
 CPCB মানে —
 (A) Control Pollution Control Board (B) Central Pollution Central Board
 (C) Control Pollution Central Board (D) Central Pollution Control Board
 CPCB का अर्थ हुन् —
 (A) कंट्रोल पल्युसन कंट्रोल बोर्ड (B) सेन्ट्रल पल्युसन सेन्ट्रल बोर्ड
 (C) कंट्रोल पल्युसन सेन्ट्रल बोर्ड (D) सेन्ट्रल पल्युसन कंट्रोल बोर्ड

78. Which of these is the most naturally occurring and frequent disaster?
(A) Tsunami (B) Draught (C) Earthquake (D) Flood
इनमें से कौन सबसे स्वभाविक रूप से होने वाली और बार-बार होने वाली आपदा है ?
(A) सुनामी (B) सूखा (C) भूकम्प (D) बाढ़
এগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে প্রাকৃতিকভাবে ঘটিত এবং ঘন ঘন দুর্ভোগ —
(A) সুনামী (B) খরা (C) ভূমিকম্প (D) বন্যা
যী মধ্যে কুনচাইঁ স্বাभाविक रूपमा अर्थात घरिघरि हुने गरेका आपदा हुन् —
(A) सुनामी (B) खडेरी (C) भूकम्प (D) बाढी
79. Which of the following is the largest source of water pollution in major rivers of India?
(A) Untreated sewage (B) Agriculture run-off
(C) Unregulated Small-scale industries (D) Religious practices
निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है ?
(A) अनुपचारित मल (B) कृषि अपवाह
(C) अनियमित लघु उद्योग (D) धार्मिक प्रथाएँ
নিচের কোনটি ভারতে প্রধান নদীগুলির জলদূষণের সবচেয়ে বড় উৎস —
(A) অপরিশোধিত পয়ঃ নিষ্কাশন (B) কৃষি রান-অফ
(C) অনিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র শিল্প (D) ধর্মীয় অনুশীলন
निम्नलिखित मध्ये कूनचार्हिँ भारतका प्रमुख नदीहरूमा जल प्रदूषणका सर्वभन्दा वैसी स्रोत छन् —
(A) अनुपचारित मल (B) कृषि अपवाह
(C) अनियमित लघु उद्योग (D) धार्मिक प्रथाहरू
80. The source/origin of Narmada river is —
(A) Amarnath (B) Kolkata (C) Kerala (D) Amarkantak.
नर्मदा नदी का स्रोत/उद्गम है —
(A) अमरनाथ (B) कोलकाता (C) केरल (D) अमरकंटक
নর্মদা নদীর উৎস/উৎপত্তিস্থল —
(A) অমরনাথ (B) কলকাতা (C) কেরালা (D) অমরকণ্টক
नर्मदा नदीका स्रोत/उद्गम हो —
(A) अमरनाथ (B) कोलकाता (C) केरल (D) अमरकंटक

—x—